



وزارة الصحة
Ministry of Health

آپنا كى اكজন

हैं और कसी बुजुर्ग
की देखभाल कर रहे हैं ?



हमेशा अपना मास्क पहनें, सुनिश्चित करें कयिह लगातार साफ हो और जब यह गीला हो जाए तो इसे बदल दें।



बुजुर्गों के साथ संपर्क से बचें और दो मीटर से कम की शारीरिक दूरी बनाए रखें, सवाय जब जरूरत हो



सुनिश्चित करें क बुजुर्ग पीछे की सीट पर बैठा है और कार के भीतर अच्छा वायु प्रवाह बनाए रखते हुए सामने की सीट खाली छोड़ दी गई है



यदि आपको लगता है क आपको संक्रमण के लक्षण हैं, तो बुजुर्गों से दूर रहें और BeSure (Ta'kaad) क्लीनिक की नकिटतम शाखा में जाएं

बुजुर्ग लोग कोरोनावायरस से जटलिताओं के
वकिस के उच्च जोखमि में हैं



MOH initiative

عش
بصحة
Live Well